

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-1 खण्ड-4

PART 1, SECTION 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2015/अग्रहायण 16, 1937
No. 04]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2015/AGRAHAYANA 16, 1937

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

सं.17(अ) दिनांक.7-12-2015.— राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं।

भारतीय नौसेना

अवैतनिक कमिशन देने की कार्योत्तर मंजूरी

निम्नलिखित भूतपूर्व मास्टर चीफ़ पेटी अफसर को 15 अगस्त, 13 से सब लेफ्टिनेंट पद की अवैतनिक कमिशन देने की कार्योत्तर मंजूरी की जाती है।

क्रम	नाम	रैंक	नम्बर
1.	विनोद कुमार	एमसी एमईसीएच 1	162389-टी

आईएचक्यू (नेवी)/डीपीएस एफ़ स एचए/2504/होनी गज़ट

ए आर कार्वे, वाइस एड्मिरल

कार्मिक अध्यक्ष

एकीकृत मुख्यालय

रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2015

No. 17(E) Dated 7-12-2015.—the President is pleased to make the following appointments:-

INDIAN NAVY**EX-POST-FACTO SANCTION FOR GRANT**
OF HONORARY COMMISSION

Ex post facto sanction is hereby accorded for grant of Honorary Commission in the rank of **Sub Lieutenant** to the under mentioned EX- MCMECH-1 with effect from 15 Aug 2013.

<u>SL.</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>PNO</u>
1.	VINOD KUMAR	MCMECH I	162389-T

[IHQ MoD(N)/DPS F.No HA/2504/Hony Gazette]

A.R. KARVE, Vice Admiral

Chief of Personnel

Integrated Headquarters

Min of Defence (Navy)